



भारत सरकार

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

राजभाषा अनुभाग

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम- वर्ष 2021-22

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम की प्रति संलग्न है। इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग की वेबसाइट raajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देशों के साथ-साथ संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी में राजकीय कार्य करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तथा अपेक्षा की गई है कि लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में कार्य किए जाएं।

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली, के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने प्रभाग/अनुभाग और कार्यालयों में यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक प्रयोग मौलिक रूप में हो जिससे कि वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए वे स्वयं हिंदी में कार्य करने के साथ ही साथ अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में हिंदी में किये गए सरकारी कामकाज की समीक्षा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में नियमित रूप से की जाती है।

3. यह राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियंता, पीसीडी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोपरि

सहायक निदेशक (राजभाषा)

1. केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुख

2. केविप्रा के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख